



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन 1940 (श०)
(सं० पटना 314) पटना, शुक्रवार, 1 मार्च 2019

सं० 3ए-2-वे०पु०-11/2018-2160/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

1 मार्च 2019

विषय:- उद्योग विभाग के अन्तर्गत हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के कीटपालक पद के वेतनमान के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 के द्वारा कीटपालक के लिए दिनांक-01/01/2006 के प्रभाव से PB-1S + ग्रेड-पे 1650/-स्वीकृत है। कीटपालक पद पर नियुक्ति की शैक्षणिक अर्हता मैट्रिककुलेशन तथा एक वर्ष का प्रशिक्षण है।

2. दिनांक-01/01/2006 के प्रभाव से छोटे वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति के द्वारा कीटपालक के लिए पी०बी०-1 + ग्रेड-पे 1800/- की अनुशंसा की गई है (अनुलग्नक-1)। किन्तु टंकण भूलवश वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 के द्वारा कीटपालक के लिये PB-1S + ग्रेड-पे 1650/- स्वीकृत हो गया, जोकि वेतन समिति की अनुशंसा के अनुरूप नहीं है।

3. वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-01/01/2006 के प्रभाव से कीटपालक के लिए पी०बी०-1 + ग्रेड-पे 1800/- की स्वीकृति/संशोधन का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के कीटपालक पद के लिए दिनांक-01/01/2006 के प्रभाव से पी०बी०-1+ग्रेड-पे 1800/- की स्वीकृति अनुमान्य की जाती है। उक्त संशोधित वेतनमान का वास्तविक लाभ वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 के प्रावधानों के आलोक में दिनांक-01/04/2007 से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 314-571+10 डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>